

प्रेस नोट दिनांक 22.04.2021

(1). पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री अंकित मित्तल के निर्देशन में कोविड-19 से बचाव हेतु चलाये जा रहे जागरूकता एवं चैकिंग अभियान में दिनांक 21.04.2021 को जनपद चित्रकूट के समस्त थाना क्षेत्रों में कोरोना वायरस के सम्बन्ध में शासन द्वारा जारी गाइडलाइन एवं आदेश-निर्देशों के उल्लंघन एवं मास्क न लगाने पर थाना कोतवाली कर्वी में 14 व्यक्तियों के विरुद्ध धारा 188/269 भादवि0 के तहत अभियोग पंजीकृत कर किये गये। जनपदवासियों से अपील की जाती है कि कोरोना वायरस के सम्बन्ध में शासन द्वारा जारी गाइडलाइन एवं आदेश-निर्देशों का पालन करें।

(2). पुलिस अधीक्षक चित्रकूट के निर्देशन में वाँछित/वारण्टी अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाए जा रहे अभियान के क्रम में श्री रामआसरे यादव अतिरिक्त निरीक्षक थाना कोतवाली कर्वी तथा उनकी टीम द्वारा मु0अ0सं0 127/2021 धारा 376/313 भादवि0 के वाँछित अभियुक्त रोहित कुमार पुत्र शिवबरन सविता निवासी टिटिहरा थाना भरतकूप हाल पता कसहाई थाना कोतवाली कर्वी जनपद चित्रकूट को गिरफ्तार किया गया।

गिरफ्तारी करने वाली टीम:-

1. श्री रामआसरे यादव अतिरिक्त निरीक्षक थाना कोतवाली कर्वी
2. आरक्षी अखिलेश कुमार

(3). उ0प्र0 शासन द्वारा नारी सुरक्षा, नारी सम्मान, नारी स्वालंबन, महिला कल्याण एवं बाल विकास के लिए चलाये जा रहे मिशन शक्ति अभियान के अन्तर्गत पुलिस अधीक्षक चित्रकूट के निर्देशन में दिनांक 22.04.2021 को एण्टी रोमियो टीम महिला थाना द्वारा सब्जी मण्डी, भैरोंपागा, धुस मैदान में, एण्टी रोमियो टीम थाना राजापुर द्वारा आटो स्टैण्ड, बस स्टैण्ड, बैंक ऑप बडोदा में, एण्टी रोमियो टीम थाना मऊ द्वारा शिवपुर तिराहा, बस स्टैण्ड, बैंकों में, एंटी रोमियो टीम थाना भरतकूप द्वारा कस्बा भरतकूप के आर्यवर्त बैंक, स्टेशन रोड, भरतकूप मंदिर रोड, कस्बा में, एंटी रोमियो टीम थाना मारकुंडी द्वारा ग्राम किहुनिया व कस्बा मारकुंडी में, एंटी रोमियो टीम थाना रैपुरा द्वारा ग्राम बराछी, नयाचन्द्रा में, एंटी रोमियो टीम थाना बरगढ़ द्वारा ग्राम कलचिहा, कस्बा बरगढ़ इंडियन बैंक में, एंटी रोमियो टीम थाना पहाड़ी द्वारा बैंक, बरेठी तिराहा, नांदी तिराहा आदि जगहों का भ्रमण कर महिलाओं/ बालिकाओं को वीमेन पावर लाइन 1090, महिला हेल्पलाइन 181, मुख्यमंत्री हेल्पलाइन 1076, पुलिस आपातकालीन सेवा 112, चाइल्ड हेल्पलाइन 1098, स्वास्थ्य सेवा 102, एम्बुलेंस सेवा 108 एवं अपने-अपने थाना के सीयूजी नम्बर के बारे में विस्तृत जानकारी देकर जागरूक किया साथ ही मास्क लगाने एवं कोविड-19 के नियमों का पालन करने हेतु बताते हुये कोरोना वैक्सीन के प्रति जागरूक किया गया। एण्टी रोमियो टीम की महिला आरक्षियों द्वारा बालिकाओं को स्वास्थ्य सम्बन्धी जानकारी दी गयी। एण्टी रोमियो टीम के सदस्यों द्वारा छात्राओं/बालिकाओं से उनके साथ घटित किसी भी प्रकार की समस्याओं के बारे में पूछा गया एवं आवश्यकता पड़ने पर सम्बन्धित थाना प्रभारी/एण्टी रोमियो टीम प्रभारी व उ0प्र0 पुलिस द्वारा संचालित महिलाओं/बालिकाओं/छात्राओं हेतु चलाये जा रहे नम्बरों पर काल करने हेतु कहा गया।